

नवंबर 2020

विजय कुमार सिन्हा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए

- यह प्रथम अवसर है जब किसी भाजपा नेता का चयन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हुआ है
- इनके पक्ष में कुल 126 वोट और विपक्ष में 114 वोट पड़े

बांका में बौद्धकालीन भवन के अवशेष पाए गए

- ये अवशेष चांदन अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में चांदन नदी के समीप पाए गए हैं
- पुरातत्विदों के अनुसार भवन के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का निर्माण हाथों से किया गया था

बिहार में, जीतन राम मांझी नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा के प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त

- बिहार में, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नवनिर्वाचित 17 वीं बिहार विधान सभा के प्रो-टेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल फागु चौहान ने उन्हें पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई।
- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी विधानसभा के लिए नव-निर्वाचित वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। वे गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं।



नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

- नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली, यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल है।
- तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी बिहार के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली।
- नोट: नीतीश कुमार निश्चित रूप से राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले हैं। सीएम के रूप में, उन्होंने नवंबर 2005 से लगातार पद पर हैं, 2014-15 की अवधि को छोड़कर।

बिहार की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ

विधान सभा (बिहार)

- राज्यपाल- फगू चौहान (बिहार के 29वें राज्यपाल)
- मुख्यमंत्री- नीतीश कुमार (बिहार के 22वें मुख्यमंत्री)
- उप मुख्यमंत्री- तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी
- अध्यक्ष (विधानसभा) - विजय चौधरी
- विपक्ष के नेता (विधानसभा) - तेजस्वी प्रसाद यादव
- अध्यक्ष (विधान परिषद) - अवधेश नारायण सिंह (कार्यकारी)
- सरकार मुख्य सचिव (विधान परिषद) - संजय कुमार सिंह



- सरकार उप मुख्य सचेतक (विधान परिषद) - रजनीश कुमार
- विपक्ष के नेता (विधान परिषद) -रिक्त

बिहार के कैबिनेट मंत्री

- नीतीश कुमार - गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सतर्कता, चुनाव और अन्य सभी विभाग जिन्हें किसी अन्य मंत्री को सौंपा नहीं गया हो
- तारकिशोर प्रसाद सिंह- वित्त, वाणिज्यिक कर, पर्यावरण और वन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास
- रेणु देवी - पंचायती राज, पिछड़ी जाति उत्थान और आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग
- विजय चौधरी - ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना और प्रसारण, संसदीय प्रभाव हवा
- बिजेन्द्र यादव - ऊर्जा, निषेध, योजना, खाद्य और उपभोक्ता मामले
- मेवा लाल चौधरी - शिक्षा
- शीला कुमारी - परिवहन
- संतो मांझी - लघु सिंचाई, एससी / एसटी कल्याण
- मुकेश साहनी - पशुपालन और मत्स्य
- मंगल पांडे - स्वास्थ्य, सड़क और कला और संस्कृति



- अमरेन्द्र सिंह - कृषि, सहकारिता
- राम प्रीत पासवान - PHED
- जितेश कुमार - पर्यटन, श्रम, खान
- राम सूरत - राजस्व, कानून

बेगूसराय की कांवर झील अब 'रामसर साइट्स' की लिस्ट में शामिल; बिहार की पहली और देश की 39 वीं ऐसी झील

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है - रामसर कन्वेंशन के तहत राज्य में इस तरह का पहला वेटलैंड है।
- रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण और बुद्धिमानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

एम्स (पटना) एवं दीघा के मध्य एलिवेटेड रोड़

- 47 किमी यह सड़क उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार के साथ जोड़ेगी
- इसके साथ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, सिवान से हाजीपुर होते हुए और गंगा नदी पर जेपी सेतु का उपयोग कर यात्रा करने वाले यात्री अब पटना से होते हुए अराह, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा और अन्य जिलों के साथ-साथ झारखंड जा सकेंगे।

